



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1946 (श10)

(सं० पटना 1221) पटना, सोमवार, 23 दिसम्बर 2024

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर 2024

सं० Exp.-33/2024(अररिया)-98—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या-76/बिहार-लो.स./09/2024/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 28.11.2024 से एतद्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 09-अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मुस्ताक आलाम, निवासी ग्राम+पोस्ट- चन्द्रदेई, थाना- अररिया आर०एस०, जिला- अररिया, पिनकोड- 854311 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, दिनांक:- 28 नवम्बर, 2024/07 अग्रहायण, 1946 (शक)

सं. 76/बिहार-लो.स./09/2024/सी.ई.एम.एस.-III यतः, बिहार राज्य की 09- अररिया लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2024 की घोषणा अधिसूचना नं. आ.अ. 101 (अ) दिनांक 12.04.2024 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 09-अररिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र सं. EXP- 06/2023-5343 पटना, दिनांक- 19.07.2024 के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के अनुसार मुस्ताक आलम जो लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2024 के बिहार राज्य के निर्वाचन क्षेत्र 09- अररिया से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मुस्ताक आलम को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार-लो.स./2024/09/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 21.08.2024 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 21.08.2024 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए मुस्ताक आलम को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा पत्र संख्या EXP-33/2024 (अररिया) - 6399 दिनांक 03.10.2024 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी के पुत्र सरफराज द्वारा दिनांक 05.09.2024 को प्राप्त किया गया था ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, द्वारा दिनांक 03.10.2024 के पत्र संख्या EXP-33/2024 (अररिया) - 6399 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुस्ताक आलम ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मुस्ताक आलम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 09-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मुस्ताक आलम, ग्राम+ पोस्ट- चन्द्रदेई, थाना- अररिया आर०एस०, जिला- अररिया, पिनकोड- 854311 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

मुस्ताक आलम,
ग्राम+पोस्ट-चन्द्रदेई, थाना-अररिया आर०एस०
जिला-अररिया, पिनकोड-854311

Election Commission of India

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/**Dated** : 28th November, 2024,
07 Agrahayana, 1946 (Saka)

NO.76/ BR-PC/09/2024/CEMS-III—**WHEREAS**, the General Election to **09-Araria Parliamentary Constituency** of Bihar, 2024 was announced by Notification No. O.N. 101 (E). dated 12.04.2024

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with **09-Araria** Parliamentary Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 04^h June, 2024. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 04th July, 2024; and

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, **Araria**, Bihar and forwarded by the Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. EXP-06/2023-5343 Patna dated 19.07.2024, **Mushtak Alam**, a contesting candidate from **09- Araria** Parliamentary Constituency of Bihar in General Election to Lok Sabha, 2024, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Araria, Bihar** and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show- Cause notice, 76/BR-PC/09/2024/CEMS-III dated 21.08.2024 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Mushtak Alam** for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, As per sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show- Cause Notice, dated 21.08.2024, **Mushtak Alam** was directed to submit his representation in writing with explaining the reason for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's Sarfaraz on 05.09.2024. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Araria**, vide its letter no. EXP-33/2024 (अररिया)- 6399 dated 03.10.2024; and

WHEREAS, the **District Election Officer, Pauri Araria** in his supplementary Report vide its letter EXP-33/2024(अररिया)- 6399 dated 03.10.2024 has reported that **Mushtak Alam** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission satisfied that **Mushtak Alam** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order”;

NOW **THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mushtak Alam** resident of **AT+PO- Chandradei, PS- Araria R.S., District-Araria, Pin Code- 584311** a contesting candidate from **09-Araria** Parliamentary Constituency of the State of Bihar in the General Election to the Lok Sabha 2024 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
Binod Kumar,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

To
Mushtak Alam,
AT+PO-Chandradei, PS-Araria R.S.,
District-Araria, Pin Code-584311

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1221-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>